



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 883]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 2017/चैत्र 8, 1939

No. 883]

NEW DELHI, WEDNESDAY MARCH 29, 2017/CHAITRA 8, 1939

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2017

का.आ. 991(अ).—जबकि, नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 18 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने नागरिकता (नागरिकों का रजिस्ट्रीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी किया जाना) नियमावली, 2003 (इसके पश्चात उक्त नियमावली के रूप में संदर्भित) बनाई जोकि नियम 4 ए के उप-नियम (3) के अंतर्गत यह प्रावधान करती है कि महारजिस्ट्रार, नागरिक रजिस्ट्रीकरण गणना के समय और अवधि को शासकीय राजपत्र में अधिसूचित करेगा;

और जबकि, केन्द्र सरकार ने असम राज्य में नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर, 1951 अद्यतन करने का निर्णय लिया है;

और जबकि, महारजिस्ट्रार, नागरिक रजिस्ट्रीकरण ने दिनांक 6 दिसम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3591(अ) के माध्यम से अधिसूचित किया है कि असम राज्य के संबंध में गणना उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होगी और तीन वर्ष की अवधि के भीतर पूरी कर ली जाए;

और जबकि, महारजिस्ट्रार, नागरिक रजिस्ट्रीकरण ने दिनांक 6 दिसम्बर, 2013 की उक्त अधिसूचना संख्या का.आ. 3591(अ) का अधिक्रमण करते हुए दिनांक 12 जनवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 119(अ) के माध्यम से अधिसूचित किया है कि असम राज्य के संबंध में गणना 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर पूरी कर ली जाएगी;

और जबकि, असम राज्य में उक्त गणना उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरी नहीं की जा सकी;

और जबकि, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, 1951 के अद्यतनीकरण के संबंध में उक्त गणना को 31 दिसम्बर, 2017 तक पूरा करना जनहित में आवश्यक और उचित माना है;

अब, इसलिए, नागरिकता (नागरिकों का रजिस्ट्रीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 4 ए के उप नियम (3) के प्रावधानों के अनुसरण में और दिनांक 12 जनवरी, 2017 की उक्त अधिसूचना संख्या का.आ. 119(अ) के अनुक्रम में महारजिस्ट्रार, नागरिक रजिस्ट्रीकरण एतद्वारा अधिसूचित करते हैं कि असम राज्य के संदर्भ में नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर, 1951 के अद्यतनीकरण के संबंध में गणना 31 दिसम्बर, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर पूरी कर ली जाएगी।

[फा. सं. 9/5/2009-सीआरडी (एनपीआर)-भाग-V]

शैलेश, नागरिक रजिस्ट्रीकरण के महारजिस्ट्रार

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA)

ORDER

New Delhi, the 29th March, 2017

S.O. 991(E).—WHEREAS, in exercise of the powers conferred by section 18 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955), the Central Government framed the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules, 2003 (hereafter referred to as the said Rules), which provides under sub-rule (3) of Rule 4A that the Registrar General of Citizen Registration shall notify the period and duration of the enumeration in the Official Gazette;

AND WHEREAS, the Central Government decided to update the National Register of Citizens, 1951 in the State of Assam;

AND WHEREAS, the Registrar General of Citizens Registrations has, vide notification number S.O. 3591(E), dated the 6th December, 2013 notified that the enumeration in respect of the State of Assam shall take place from the date of publication of that notification and be completed within a period of three years;

AND WHEREAS, in supersession of the said notification number S.O. 3591(E), dated the 6th December, 2013, the Registrar General of Citizens Registration vide notification number S.O. 119(E), dated the 12th January, 2017, notified that the enumeration in respect of the State of Assam shall be completed within the period ending on the 31st day of March, 2017;

AND WHEREAS, the said enumeration in the State of Assam could not be completed within the period specified in the said notification;

AND WHEREAS, the Central Government has considered it necessary and expedient in the public interest to complete the said enumeration in connection with the updation of the National Register of Citizens, 1951 by the 31st day of December, 2017;

Now, THEREFORE, pursuant to the provisions of the sub-rule (3) of rule 4A of the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules, 2003 and in continuation of the Notification number S.O. 119(E), dated the 12th January, 2017, the Registrar General Citizen Registration hereby notifies that the enumeration in connection with the updation of the National Register of Citizens, 1951 in respect of the State of Assam shall be completed within the period ending on the 31st day of December, 2017.

[F. No. 9/5/2009-CRD (NPR)-Vol. V]

SAILESH, Registrar General of Citizen Registration